

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16032023-244422  
SG-DL-E-16032023-244422असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/ फाल्गुन 24, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 563
No. 90]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/ PHALGUNA 24, 1944	[N. C. T. D. No. 563

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 मार्च, 2023

फा. सं. 2(15)/स्था./पुरा./2015/645.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर 1968 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 20 दिसम्बर 1995 की अधिसूचना सं. फा. 2/19/92/मोनू/2570 द्वारा अधिसूचित उप निदेशक (पुरातत्व) के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप निदेशक (पुरातत्व) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

## 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (1) इन नियमों को पुरातत्व विभाग, उप निदेशक (पुरातत्व) के पद की भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

## 2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर

उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि**

उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता**

ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति**

जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव**

इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	उप निदेशक (पुरातत्व)।
2.	पदों की संख्या	:	01 * (2023) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह 'क'।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर - 11 (67700-208700/- रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	चयन।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं।
9.	परिवोक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	पदोन्नति वालों के लिए 02 वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है	:	पदोन्नति :  नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में नौ वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 7 (44900 - 142400/-रुपये) तथा विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने वाले पुरातत्वविद अधिकारी में से।  टीप 1 - नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 में

		<p>पुरातत्वविद अधिकारी के भरक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि को आठ वर्ष होगी ।</p> <p><b>टीप 2</b> — जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) ऐसी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है ।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :</b></p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /सांविधिक या स्वायत्त निकाय /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी :-</p> <p><b>(क) (i)</b> मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p><b>(ii)</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष,</p> <p>तथा</p> <p><b>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले :</b></p> <p><b>अनिवार्य योग्यता :</b></p> <p>i किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुरातत्व में मास्टर डिग्री अथवा पुरातत्व एवं विरासत प्रबंधन में मास्टर डिग्री अथवा भारतीय इतिहास (विषय/पेपर के रूप में प्राचीन भारतीय इतिहास या मध्यकालीन भारतीय इतिहास सहित) में मास्टर डिग्री अथवा मानव शास्त्र (विषय/पेपर के रूप में पाषाण युगीन पुरातत्व सहित) में मास्टर डिग्री अथवा भू विज्ञान (विषय/पेपर के रूप में प्रातिनूतन युगीन भू विज्ञान) में मास्टर डिग्री ।</p> <p>ii पुरातत्व संस्थान, भारत सरकार से पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।</p> <p><b>अनिवार्य अनुभव :</b></p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /सांविधिक या स्वायत्त संगठन /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में पुरातत्व के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव ।</p> <p><b>वांछनीय योग्यता :</b></p> <p>1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संस्कृत/पाली/प्राकृत/फारसी /अरबी में प्रमाण-पत्र ।</p> <p>2. पुरातत्व में डाक्ट्रेट डिग्री ।</p>
--	--	--

		<p><b>टीप 1</b> — भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p><b>टीप 2</b> — केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः 04 (चार) वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p><b>विभागीय पदोन्नति समिति</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य</li> <li>3. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य</li> <li>4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक की वह पदेन सचिव न हो — सदस्य</li> </ol> <p><b>विभागीय स्थाईकरण समिति</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वित्त आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष</li> <li>2. विभाग का प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य</li> <li>3. विशेष/अपर सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य</li> </ol>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	प्रत्येक अवसर पर पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
सरकार के आदेश से और उनके नाम पर,

चोखा राम गर्ग, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

## DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

### NOTIFICATION

Delhi, the 15th March, 2023

**F. No. 2(15)/Estt./Archy/2015/645.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number S.O. 3532 dated the 24<sup>th</sup> September, 1968 and in supersession of this Government's recruitment rules for the post of Deputy Director (Archaeology) notification No. F.2/19/92/Monu/2570 dated 20<sup>th</sup> December, 1995 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Archaeology) in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :

#### 1. Short Title and Commencement.

(1) These rules may called the Department of Archaeology for the post of Deputy Director (Archaeology) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

**2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix.**

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**

No persons, -

- (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

**SCHEDULE**

1.	<b>Name of Post.</b>	Deputy Director (Archaeology).
2.	<b>Number of Posts.</b>	01* (2023) * Subject to variation dependent on workload.
3.	<b>Classification.</b>	General Central Service Non Ministerial Gazetted, Group, A.
4.	<b>Pay Level in the Pay Matrix.</b>	Level - 11 (Rs. 67700- 208700).
5.	<b>Whether Selection Post / Non-Selection Post.</b>	Selection.
6.	<b>Age limits for Direct Recruits.</b>	Not Applicable.
7.	<b>Educational and other qualification required for direct recruits.</b>	Not Applicable.
8.	<b>Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.</b>	Not Applicable.
9.	<b>Period of Probation if any.</b>	Two years for promotees.
10.	<b>Method of Recruitment.</b>	By Promotion failing which by Deputation (ISTC).
11.	<b>In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.</b>	<p><b>Promotion:</b> Archaeological Officer in Level-7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix with nine years service in the grade after appointment thereto on regular basis, and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by the Department.</p> <p><b>Note 1:</b> The eligibility service for persons holding the feeder post of Archaeological Officer in Level-7 of the pay matrix on regular basis on the date of notification of the revised rules shall be eight years.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be</p>

	<p>considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p> <p><b>Deputation (ISTC):</b> Officers from the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations /Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Bodies/Recognized Universities/Recognized Research Institutes:</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department;</p> <p><b>AND</b></p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p><b>Essential Qualification :</b></p> <p>(i) Masters degree in Archaeology or Masters degree in Archaeology and Heritage Management or Masters degree in Indian History (with Ancient Indian History or Medieval Indian History as a subject/paper) or Masters degree in Anthropology (with stone age Archaeology as a subject/paper) or Masters degree in Geology (with Pleistocene Geology as a subject/paper) from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) Post-Graduate Diploma in Archaeology from Institute of Archaeology, Government of India.</p> <p><b>Essential Experience :</b></p> <p>Five years experience in the field of archaeology in Central Government/ State Government/ Union Territory Administration/ Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Organizations/ Recognized Universities/ Recognized Research Institutes.</p> <p><b>Desirable Qualification :</b></p> <p>1. Certificate in Sanskrit/Pali/Prakrit/Persian/Arabic from recognized University/Institute.</p> <p>2. Doctorate Degree in Archaeology.</p> <p><b>Note 3:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 4:</b> The period of deputation (including short term contract) including period of deputation</p>
--	---

		(including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.
12.	<b>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.</b>	<p><b><u>Departmental Promotion Committee</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman/Member, UPSC – Chairman.</li> <li>2. Chief Secretary, GNCT of Delhi – Member.</li> <li>3. Secretary Concerned in the GNCT of Delhi – Member.</li> <li>4. Head of Department concerned unless he is Ex-officio Secretary – Member.</li> </ol> <p><b><u>Departmental Confirmation Committee</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Financial Commissioner, GNCT of Delhi - Chairman.</li> <li>2. Administrative Secretary of the Department, GNCT of Delhi – Member.</li> <li>3. Special/Addl. Secretary (GAD), GNCT of Delhi – Member.</li> </ol>
13.	<b>Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.</b>	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up of post on each occasion.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

CHOKHA RAM GARG, Secy. (ACL)